



धोखाधड़ी की चेतावनी!

पिछले कुछ वर्षों में कॉर्पोरेट धोखाधड़ी अनियंत्रित हो गई है और इसका बड़े पैमाने पर प्रसार हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इसकी समूह कंपनियां (सामूहिक रूप से 'रिलायंस समूह')में हमने एक विशेष प्रवृत्ति का अवलोकन किया है, जिसमें कुछ धोखेबाज नौकरी की तलाश करने वाले भोले-भाले लोगों से संपर्क करते हैं और उन्हें हमारी समूह कंपनी में आकर्षक नौकरी दिलाने का वादा करते हैं। संभावित आवेदक का भरोसा हासिल करने के बाद ये धोखेबाज उन लोगों को वास्तविक नियुक्ति अथवा साक्षात्कार से जुड़ी आवश्यकताओं को प्रारंभ करने का हवाला देते हुए एक निर्दिष्ट बैंक खाते में भुगतान करने के लिए कहते हैं।

इसकी कार्यप्रणाली निम्नानुसार है:

- पहली बार बेहद कम धनराशि की मांग की जाती है, ताकि उम्मीदवार को खतरे का आभास नहीं हो और उसे आगे के लिए तैयार किया जा सके।
- एक बार अपने जाल में फंसाने के बाद, धोखेबाज धीरे-धीरे निर्धारित साक्षात्कार या नियुक्ति के करीब आने वाली तिथियों के साथ धनराशि बढ़ाता है।
- ऐसी भी प्रवृत्तियां सामने आई हैं, जिसमें लैपटॉप कंप्यूटर जैसे इनिशियल स्टार्ट-अप किट उपलब्ध कराने के नाम पर बड़ी राशि की मांग की जाती है।
- पैसे के अलावा, ये धोखेबाज कथित तौर पर आवेदन की प्रक्रिया के दौरान व्यक्तिगत जानकारी भी मांगते हैं। बाद में इस डेटा को बाजार में बेच दिया जाता है।

धोखाधड़ी की चेतावनी के माध्यम से हम नौकरी की इच्छा रखने वाले सभी संभावित उम्मीदवारों को सावधान करना चाहते हैं कि, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में हम आवेदक को किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार की धनराशि जमा करने के लिए नहीं कहते हैं।

आगे यह भी सूचित किया जाता है कि:

- 'रिलायंस समूह की तरफ से नौकरी अथवा प्रसुविधा देने या जारी करने के लिए किसी भी एजेंट, एजेंसी या व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया गया है
- रिलायंस समूह, नौकरी की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति से नौकरी अथवा साक्षात्कार का प्रस्ताव देने के लिए किसी प्रकार की धनराशि अथवा जमा राशि नहीं लेता है

नौकरी की तलाश कर रहा कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की एजेंसी, एंग्लॉयमेंट पोर्टल या व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वह ऐसा अपने जोखिम पर करेगा और इस प्रक्रिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली किसी भी प्रकार की क्षति के लिए रिलायंस समूह जिम्मेदार नहीं होगा।

भर्ती में धोखाधड़ी से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर, प्रमुख, धोखाधड़ी एवं दुर्व्यवहार जांच, को recruitment.fraud@ril.com पर सूचना देना हमारे पारस्परिक हित के लिए बेहतर होगा।